



CHOITHRAM SCHOOL NORTH CAMPUS

RUN BY T. CHOITHRAM FOUNDATION

★ *GRAVITAS* ★



THIRD EDITION

JULY 2024

Dear Parents,

Welcome to the latest edition of GRAVITAS, where we celebrate the remarkable growth and achievements of our young learners. We're excited to share stories of progress, special moments, and valuable insights to support your child's learning journey at home.

SPOTLIGHT



Welcoming Brilliance & Excellence : Introducing our new Vice Principal

The School Choithram School North Campus is pleased to announce the appointment of our new Vice Principal Ms. Anshu Chopra. She has a wealth of experience and passion for education. Ms. Anshu Chopra has a fresh perspective and a commitment to continue the tradition of brilliance that defines our school. With her vision and expertise our school hopes to achieve new heights of excellence.

ORIENTATION PROGRAM



MONTESSORI



CLASS I



CLASS III



CLASS VI





★ AWARDS AND ACHIEVEMENTS ★



The students of class VI participated in NCO and brought laurels to the institution. The winners are Anugya Rewal (Gold Medal of Excellence), Devaj Parekh (Gold Medal of Distinction), Kanishka Tiwari (Gold Medal of Excellence), and Nishant Patel (Gold Medal of Excellence). Outstanding young brains from class VIII included Gargi Matkar (Gold Medal of Excellence), Atulya Mehra (Gold Medal of Excellence), and Shriyanshi Gupta (Gold Medal of Excellence).



Charvi Sharma of Class IX E competed in the Shishukunj Inter-School Swimming Competition. She won first place in the 400-meter freestyle girls' category and second place in the 100-meter butterfly girls' category. She was awarded medals and certificates.



Kritant Mittal of grade VI has participated in many swimming competitions and brought laurels to the school



During the June 28 school assembly, the students received recognition for their participation in a variety of competitions. Avya Jain, XD, received a certificate of participation for taking part in the sixth iteration of BITS Pilani's Young Entrepreneurs' Bootcamp.



At the M.K. Fitness Club, Vaibhav Gupta finished second in the U-12 group in the freestyle swimming competition. Congratulations to the young achiever!





Choithram School North Campus

C.B.S.E. - ALL INDIA SECONDARY SCHOOL EXAMINATION-2024



ACHIEVERS of CLASS X

 AARAV MAHESHWARI 96.2%	 SUYASH SINGH 96%	 GRANTH VIJAYVARGIA 96%	 RAGHAV SETHI 95.8%	 FRANSHI SINGHAL 95.8%	 SOUMYA RAWAT 95.2%	 AKSHITA SETHI 94.2%	 ANANYA MOITRA 94%	 ISHANA SWAMI 94%	 DAKSH AGRAWAL 93.8%	 KASHVI BANSAL 93.8%	 SANYUKTA PALIWAL 93.6%		
 PRAGYA PATEL 93.6%	 DIVIT PATHAK 93.4%	 AARADHYA GOUR 93%	 YASH RUJHWANI 93%	 PAVNI GUPTA 92.8%	 CHARVI AGRAWAL 92.8%	 VANSHIKA BAGLA 92.6%	 AISHWARYA PURCHIT 92.4%	 BHAVYA MAKHUJA 92.2%	 ELAKSHI BAKADIYA 92%	 AADITI N. BARVE 91.8%	 WIDEHEE AGRAWAL 91.8%		
 ARNAV BANDI 91.6%	 LAKSHYA RAJDEV 91.4%	 MAANYA CHATURVEDI 91.4%	 ANVESHA RISHI 91%	 SHREYAS BELSARE 91%	 ANYA SHARMA 91%	 MANVISH'S BHATIA 90.8%	 JAISHREE SHARMA 90.8%	 TANAY PATNI 90.6%	 ATHARVA GARG 90.4%	 SONAKSHI SABOO 90%	 ISHAN GUPTA 90%	 NALIN SURSALUT 90%	
 GULJAN D. TIWARI 90%	 SHUBANGHOLI DHORA 89.8%	 AARADHYA JAKHETIA 89%	 AARAV JAIN 88.2%	 HARSHAL BARJWAL 88%	 ALISHA ARORA 87.8%	 MUKUND RAZDAN 87.8%	 RAJVEER VERMA 87.8%	 VATEAL JAIN 87.8%	 SHREYAS BELSARE 87.6%	 DHARVI BATHI 87.6%	 ADITYA YADHWANI 87%	 HARSH GOYAL 86.8%	 AVRAJ GHUKLA 86.8%
 ATHARV CHULLE 86.8%	 SAHAYA S. LUBELA 86.2%	 ANISH JAIN 85.8%	 PRITVI PATIDAR 85.6%	 KUNAL SONI 85.6%	 PANKI CHAWAN 85.4%	 SHARVIT CHOUHAN 84.4%	 BATUL HADRI 85.4%	 AASHEEL NEEMA 85.4%	 SANY JHRA 85.4%	 HRAL JAIN 85%	 HITESH JAIN 84.6%	 RISHAB BUDHWANI 84.4%	 DHWAL JOSHI 84.4%
 TANVI JOSHI 84.4%	 JYOTIKATA THAKUR 84%	 HWEES S. HETORE 84%	 CHINMAY TUBEY 83.4%	 ANSHU SHARMA 83.4%	 KALPESH RANGARI 83.4%	 KARINAK RANDEY 82.4%	 GARIMA NAWANI 82.2%	 KRITIKA SANGWAN 82%	 PRISHA BACHHWANI 81.8%	 GARVI GUPTA 81.8%	 ANVI GUPTA 81.8%	 KARTIK SAHU 81.4%	 ISHA PATIDAR 81.4%
 KAVAY MAKHANA 81.2%	 AVIKA SHUKLA 80.6%	 RUJANKSHA TUBEY 80.4%	 JAYNARAN SHARMA 80.4%	 LOCHAN AGRAWAL 79.6%	 MAUSUMI TIWARI 79.6%	 SOUMI SHAWER 79.2%	 SINKSHI SAXENA 78.4%	 RAJANYA MEHTA 77.4%	 DIPANSHU SHARMA 76%	 NASHA SINHA 75.8%	 RANBIR SINGH GILL 75.6%	 ARISHA ALI 75.4%	 ARSHAD RISHAD 75.4%



Choithram School North Campus

C.B.S.E. - ALL INDIA SENIOR SECONDARY SCHOOL EXAMINATION-2024



ACHIEVERS of Class XII

Science Stream (Students who got above 75%)

 SUHAAN S. KASERA 95%	 ASMI AGNIHOTRI 93%	 JASMAN K. CHHABRA 90%	 SHORYA KUDESIA 90%	 ANIKET KHOLE 88.8%	 CHINMAY SONI 86.8%	 AROHI KATE 86.2%	 KSHITIJ NARAMDEV 85%	 NIDHI JAIN 83.4%	 PRISHA JOSHI 82.2%
 ARYA KHANDELWAL 82%	 VIBHOR JAIN 81.6%	 NAMAN SINGH CHOUHAN 79.4%	 AMISHI PATIDAR 79%	 PRASHEELA MANDIGA 78.4%	 AKSHADA SAKORIKA 78.4%	 MEEMANSA SAHGAL 77.4%	 PRAJAKTA MANDIGA 75.8%	 GITAANSH SHRIVASTAVA 75.2%	

Commerce Stream (Students who got above 75%)

 RIYA CHORARIA 95.6%	 NANDINI MISHRA 93.6%	 MITI VIJAYVARGIA 89.4%	 KRISHNA MITTAL 88%	 MAYANK MALANI 87.8%	 RUSHALI JOSHI 87.6%	 GARV MEDATWAL 87.2%	 ADITYA GOYAL 86.6%	 AARAV MUJAWADIA 86%
 SHOURYA SUGANDHI 85.8%	 YATHARTH CHOTHWANI 85.4%	 VARTIKA VERMA 84.6%	 ANJU JAIN 84.2%	 NANSHIKA CHOUDHARY 84.2%	 GAUHIKA JUNEJA 82%	 TANMAY RATHI 81.8%	 DIVY JAIN 79.4%	 KHUSHI JAIN 78.8%
 VANSHIKA AGRAWAL 77.8%	 JASLEEN KAUR BHATIA 77.6%	 SIKANDAR KALLI 77.2%	 PRANAV BEESANI 77%	 KUNAL MAKHUJA 76.8%	 KRISH LOHANI 76%	 KAAVY BHARDWAJ 75.4%	 KRISHNA JHALANI 75.4%	 TEJAS MUKATI 75.2%

Humanities Stream (Students who got above 75%)

 MANNAT SHARMA 95.6%	 SHRADHA BILLORE 94%	 AADITYA JOSHI 84%	 MISHIKA TIWARI 86%	 BHUMIKA JOSHI 80.8%	 PRASHI TUNGARE 78.2%
----------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------



CELEBRATIONS

WELCOME PARTY



After the first day of classes, our students are already forming strong bond with their peer groups. To celebrate and welcome everyone, we organized a vibrant welcome party.

INTERNATIONAL YOGA DAY



Yoga is the journey of the self, through the self, to the self':In honor of International Yoga Day.

INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUG ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING



Every year on June 26th, the world observes World Drug Day, also called the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking. In observance of the International Day against Drug Abuse and Illegal Trafficking, CSNC scouts, NCC, and NSS cadets conducted an awareness campaign in and around the school localities.

INTERNATIONAL PLASTIC BAG FREE DAY



A special assembly to honor 'International Plastic Bag Free Day' was conducted by Grade IX D students on July 3, 2024. A skit to increase awareness of the negative environmental effects of plastic bags was performed, highlighting the detrimental impact that plastic bags have on the ecosystem and encouraging sustainable alternatives.



SHANVI ASATE SR. MONT. B



SHARGINI RATHI SR MONT.C



ANVI GHATIYASR MONT. A



ISHANI RAGHUWANSHI II B



NAVANSHEE CHOUDHARY X



VED PANDEY VIII C




AARNA AGRAWAL V A



KAVYA SHARMA IX A



ISHIKA JAIN



DESHNA JAIN V A



SAMBHAVI RAGHAV II C



परिश्रमी प्रयासों से सफलता पाते हैं

एक असफलता के दुःख से, तू क्यों इतना डर गया। शोक किस बात का तुझे, कि नेत्र अश्रुओं से भर गया। इतनी भी क्या वेदना तुझे, कि हृदय, स्थान से ही सर गया। बिना त्रुटियों के भला, इस धरा से कौन-सा है नर गया।।

सूर्य के प्रकाश से भी कभी, कुछ स्थान छूट जाते हैं। कभी-कभी वे द्युतिपूर्ण तारे भी, टूट जाते हैं। जीवन से किस मनुष्य के, अटूट नाते हैं। वे ललित रत्न भी तो, कहाँ आग लगा पाते हैं।।

सर्वदा नहीं स्पर्धा का, जयघोष ही शान है। जिसने जनों के हृदयों को जीत लिया, वहीं तो महान है। तुझसे गलतियाँ होंगी, तू भगवान नहीं इंसान है। फिर भी मानता क्यों तू, उनको स्वयं का अपमान है।।

दुःख उन्हें हो जो कभी, स्वयं के पंख ही न देख पाए। आखिर बिना ज्योति के दीप, आज तक किसको है भाए। अमावस्था की रेन में भला, कोई कहाँ से प्रकाश लाए। कोशिश करके ही इस घने अंधकार में, परिश्रमी अपने उजालों को पाए।।

इस असफलता को भविष्य नहीं, भूतकालिक सत्र बना। हार भी तुझसे क्षमा मांगे, ऐसा कोई मंत्र बना। पराजय को दुर्बलता नहीं, स्वयं का शस्त्र बना। क्षीण सूत्रों से क्षत मत हो उन्हीं से जीवन के वस्त्र बना।।



श्रीयांशी गुप्ता
7 वीं 'अ'

DOWN THE MEMORY LANE

Every journey that begins has to come to an end. But this journey leaves behind a trail of memories that you hold throughout your life. Never would we forget our first step in the school nor would the memory of our last step escape. The smile, the tears, the hardships and the downfall is what weaves the path for a new beginning.

We had always been taught that school is our second home, but we had always thought how, and contradicted to this fact. But now, we realize that they had been right all along. The priceless hours spent with friends who became family, teachers who comforted us, is what makes school a second home. OUR SECOND HOME.

Every pillar of this school has contributed into building what we are. We have broken down here and then gathered our strength. We have had shoulders to lean on, in our moments of despair. We have not only faced situations that put a smile across our face, but also moments where we weld up. We have had instances where we felt that there was nothing left and times when we were at the top of the world. We would never forget those times we spent by the windows talking endless things or the times when we laughed till our stomach ached. Those endless strings of memories which we cannot put into words shall always remain with us.

A journey with highs and lows, excitement, dreams, desires fulfilled and unfulfilled will always be imprinted on our heart and so we leave an imprint here



MAANYA CHATURVEDI
XI

READING- A PLEASURE

For my heart, for my soul
Reading is a pleasure,
Whenever I read a new book
It feels like I discovered a treasure.
The pleasure you get
When you are reading,
Get so lost in the book
It feels better than daydreaming.
Fantasy or mystery,
Action or adventure,
The more interesting the book is,
The deeper I go to venture.
To a person's mind
Reading is a blessing,
Without eating, without sleeping
I can go on and on reading.

AVANI ARYA
IX B



HARD WORK

We should keep up the hard work,
Because success certainly isn't
gained by luck
but achieved by a tough grind
that comes from your mind.
Not from an effortless fluke,
and laziness is something you
must unhook.
Try hard and never give up
And be proud when you stand up

NIVAAN BHAND
VIII D



WHAT MONEY HAS DONE

Money! What have you done!
God is being sold on the
streets.
People are getting every
opportunity just because of
some small pieces of paper.
It is a quest for material leisure
and love matters less.
'Money' you were being first
used as currency, but now for
bad means. so it can be
Make On...
N...New,
E...Entry with
Y...Years.

ATHARVA MEHRA
VIII D



The journey is more important than the destination

As per human tendency, we often focus on end result, the success and achievements rather than the efforts and hard work is associated with that event or result.

People forget that the path is more significant than the final results. The journey is more important than the end because it shapes who we become and how we approach life.

When we set goals, we often focus on the end result—the destination. While it's important to have a clear idea of where we want to go and what we wish to achieve, it's equally important to remember that the journey to get there is just as significant, if not more so.

Every challenge we encounter on our way to our goal is an opportunity for growth. We learn to persevere when things get tough, to adapt to new situations and circumstances, develop more acceptance and to appreciate the small wins along the way. It's the process of striving towards our goal that builds resilience and character, not just the end result.

Moreover, the journey is where we form relationships and make memories which we cherish throughout our lives.

It's the people we meet and the experiences we have along the way that gives our lives meaning and purpose. The end result might be a momentary sense of satisfaction, but the relationships and memories we create along the way can last a lifetime.

Let us understand it with an example of World Cup (ODI)- 2023, when India lost the final match against Australia. There are many theories and reasons explained by people for the reason India lost the final match but the truth is we lost the world cup.

Indian people were feeling discontent, distress and helpless to understand that how could it happen. But here also the mentioning is required that India won all ten matches of world cup in a row till the final match. The journey of Indian cricket team was excellent and overwhelming throughout the tournament.

The journey of the team was remarkable throughout the tournament but no one was thinking of it but focusing on the end result.

Then here comes the 20-20 world cup 2024. India made a remarkable comeback. Winning the trophy was the dream of every Indian cricket fan.

When we shift our focus to the journey, we learn to enjoy the process rather than just waiting for the end. We savor each step, celebrate each success, and learn from each setback. We develop a mindset of gratitude and appreciation, recognizing the value in every moment and every experience.

In conclusion, while it's important to have goals and aspirations, we must not forget that the journey is just as important as the end result. The journey shapes who we are and how we approach life and it's where we form relationships and make memories. Let us embrace the journey and find joy in each step of the process.

I hope now we all will prefer journey over end.



Ms. Namrata Upadhyay Sharma
TGT Social Science

हमारी विरासत

विश्व को पहले हमीं ने ज्ञान शिक्षा दान की.

आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की।

जिन युगों तक इतिहास की किरणें तक नहीं पहुंच पाती उन युगों से भारतीय संस्कृति का दैदीप्यमान ज्योतिर्भस्कर उदीयमान है। भारत की यही सभ्यता- संस्कृति उसे दूसरे देशों से अलग बनाती है। भारत को कला एवं संस्कृति, भाषा, जीवन दर्शन, साहित्य, ललित कला, स्थापत्य कला, परंपरा, रहन सहन इत्यादि विरासत में मिले हैं। इन सभी भारतीय विरासतों की विश्व में एक विशिष्ट पहचान है, इन पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है।

भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सुंदर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जाता है। विविधता में एकता की संस्कृति भारत को विरासत में मिली है। यहां कई धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं, जिनके रहन सहन, आस्था और भाषा में अंतर है। एक और दक्षिण में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम भाषाओं का सौंदर्य है तो दूसरी और उत्तर पूर्वी राज्यों में नागा, त्रिपुरी, मणिपुरी, मिशमी आदि जनजातियों की परंपराओं का पर्व है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम जब विश्व के रंगमंच पर सराहा जाता है और महाराष्ट्र की लावणी में पंजाब का भांगड़ा तथा गुजरात के गरबे में मध्यप्रदेश की पूजा आती है तब सांस्कृतिक विरासत के मंच पर पूरा भारत वर्ष इकट्ठा नजर आता है।

कला की विरासत हमें सिर्फ सौंदर्य का दान ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को लगाम और ठहराव भी देती है। यहां तक कि हमारे आंगन को सुशोभित करने वाली रंगोली भी हमारी विरासत ही है।

हम उस महान विरासत के धनी हैं जो समय के अनुकूल है जो भविष्य के निर्माण में उप कारक है। भारत आयुर्वेद एवं योग का विश्व गुरु है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से योग आज के वैज्ञानिक युग में अत्यंत सार्थक एवं मानव उपयोगी साबित हो रहा है इसलिए दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है आज जब व्यक्तिगत तनाव की चर्चा होती है तो इसके समाधान के रूप में योग दिखाई देता है। भारत के लोग प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, प्रकृति को प्रेम करना जानते हैं। आज विश्व पर्यावरण की जिन समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे पास वह विरासत है जिससे विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामोनिशां हमारा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा



MS.Rakhi Saxena
HOD Hindi Department

EDITORIAL TEAM



Dr. Palak Shah
TGT English



Ms. Arti Rawat
TGT English




Ms. Sonal Pathak
TGT Computer

“Let us remember: One book, one pen, one child and one teacher can change the world.”

Contact US

www.choithramschoolnorthcampus.org



info@choithramschoolnorthcampus.org



6264739071



MR-11, Nipania Indore

CONNECT WITH US